



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]
No. 62]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2000/चैत्र 10, 1922
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2000/CHAITRA 10, 1922

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2000

सं. 57-प्रेष/2000.—राष्ट्रपति निम्नलिखित पुरस्कारों की घोषणा करते हैं :—

पद्म विभूषण

- श्री भैरव दत्त पांडे (सिविल सेवा), अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश।
पंडित हरि प्रसाद चौरसिया (कला-संगीत-वाद्य), मुम्बई, महाराष्ट्र।
प्रोफेसर जगदीश नटवरलाल भगवती (साहित्य एवं शिक्षा-अर्थशास्त्र), न्यूयार्क, यू. एस. ए.।
पंडित जसराज मोतिराम (कला-शास्त्रीय संगीत-गायन), मुम्बई, महाराष्ट्र।
प्रोफेसर काकदन नन्दनाथ राज (साहित्य एवं शिक्षा), त्रिवेन्द्रम, केरल।
गुरु केलुचरण महापात्र (कला-नृत्य), भुवनेश्वर, उड़ीसा।
डा. कृष्ण बिहारी लाल (सिविल सेवा), दिल्ली।
डा. कृष्णस्वामी कस्तूरिंगन (विज्ञान एवं इंजीनियरी-अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी), बंगलौर, कर्नाटक।
श्री मैदवोलु नरसिंहम् (व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।
डा. मनोहर सिंह गिल (सिविल सेवा), दिल्ली।
श्री राशिपुरम कृष्णास्वामी नारायण (साहित्य एवं शिक्षा-साहित्य), चेन्नई, तमिलनाडु।

श्री सिकन्दर बख्त (सार्वजनिक कार्य), दिल्ली ।
श्री तरलोक सिंह (सिविल सेवा), दिल्ली ।

पद्म भूषण

श्री अनिल कुमार अग्रवाल (पर्यावरण), दिल्ली ।
प्रोफेसर ब्रजवासी लाल (विज्ञान एवं इंजीनियरी-पुरातत्व), दिल्ली ।
श्री धर्मस्थल वीरेन्द्र हेग्गड़े (समाज कार्य), दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक ।
प्रोफेसर (डा०) हरबन्स सिंह वसीर (चिकित्सा-हृदय रोग), गुड़गांव, हरियाणा ।
श्री होलेनरसीपुर योगनरसिंहम् शारदा प्रसाद (साहित्य एवं शिक्षा), दिल्ली ।
स्वामी कल्याण देव (समाज कार्य), मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
स्वर्गीय श्री करमशी जेठाभाई सोमैया (मरणोपरांत) (समाज कार्य), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
बेगम कुवसिया ऐजाज रसूल (समाज कार्य), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
प्रोफेसर (डा०) पक्किरिस्वामि चन्द्र सेखरन (विज्ञान एवं इंजीनियरी-फ़ारेंसिक साइंस), बंगलौर, कर्नाटक ।
प्रोफेसर पावगड़ा वेन्कटा इन्दिरेशन (विज्ञान एवं इंजीनियरी-इलैक्ट्रानिक्स), दिल्ली ।
डा० रघुनाथ अनन्त माशेलकर (विज्ञान एवं इंजीनियरी-रसायनशास्त्र), दिल्ली ।
श्रीमती राधा रेड्डी (कला-नृत्य), दिल्ली ।
श्री राजा रेड्डी (कला-नृत्य), दिल्ली ।
श्री रजिनीकान्त (कला-सिनेमा), चेन्नई, तमिलनाडु ।
श्री राम नारायण अग्रवाल (विज्ञान एवं इंजीनियरी-एअरोस्पेस), हैदराबाद, आंध्रप्रदेश ।
श्री रतन नवल टाटा (व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
श्रीमती शरन रानी बाकलीवाल (कला-संगीत-वाद्य), दिल्ली ।
स्वर्गीय डा० सूर्यनारायण श्रीनिवासन (मरणोपरांत) (विज्ञान एवं इंजीनियरी-अंतरिक्ष रक्षा), तिरुवनन्तपुरम, केरल ।
डा० वासुदेव कलकुन्टे आत्रे (विज्ञान एवं इंजीनियरी-रक्षा इलैक्ट्रानिक्स), दिल्ली ।
मौलाना वहीदुद्दीन खान (सार्वजनिक कार्य), दिल्ली ।

पद्म श्री

- श्री अब्दुर्रहमान राही (साहित्य एवं शिक्षा-कश्मीरी), जम्मू एवं कश्मीर ।
 श्री अल्ला रक्खा रहमान (कला-संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्री अल्लोयशियस प्रकाश फर्नेनडिज (समुदाय विकास), बंगलौर, कर्नाटक ।
 श्री अलिक पदमसी (कला-थिएटर), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 श्रीमती अंजली ईला मेनन (कला-चित्रकला), दिल्ली ।
 डा० दिलीप देवीदास भवालकर (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-लेजर प्रौद्योगिकी), इंदौर, मध्यप्रदेश ।
 श्री दीना नाथ मल्होत्रा (पुस्तक प्रकाशन), दिल्ली ।
 स्वर्गीय श्री एलांबम नीलकान्त सिंह (मरणोपरांत) (साहित्य एवं शिक्षा-मणिपुरी), इम्फाल, मणिपुर ।
 श्री एनुगा श्रीनिवासुलु रेड्डी (सार्वजनिक कार्य), न्यूयार्क, यू०एस०ए० ।
 श्री गोपालसामि गोविन्दराजन (विज्ञान और इंजीनियरी-इन्स्ट्रुमेंटेशन), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 प्रोफेसर ग्रीगोरीय ल्वोविच बोदारेव्स्कीय (साहित्य और शिक्षा), मास्को, रूस ।
 डा० गुरदेव सिंह खुश (विज्ञान एवं इंजीनियरी-कृषि विज्ञान), मनीला, फिलीपीन्स ।
 डा० गुरमुख सजनमल सैनानी (चिकित्सा-शास्त्र), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 डा० हनुमप्पा सुदर्शन (समाज कार्य), बी०आर० हिल्स, कर्नाटक ।
 श्रीमती हेमा मालिनी (कला-सिने कला), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 डा० इम्मानेनि सत्यमूर्ति (चिकित्साशास्त्र-हृदय रोग विज्ञान), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्री जगन्नाथ कौल (समाज कार्य), फरीदाबाद, हरियाणा ।
 श्रीमती जानकी अथीनहाप्पन (समाज कार्य), क्वालालंमपुर, मलेशिया ।
 प्रोफेसर (डा०) काकर्ला सुब्बाराव (चिकित्साशास्त्र-रेडियोलॉजी), हैदराबाद, आंध्रप्रदेश ।
 श्री कालिका प्रसाद सक्सेना (साहित्य एवं शिक्षा-हिंदी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
 श्री कन्हारि चित्रकार (कला-चित्रकला), मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
 डा० कृपाल सिंह चुग (चिकित्सा शास्त्र-नेफ्रोलोजी), चण्डीगढ़ ।
 डा० महेन्द्र भण्डारी (चिकित्साशास्त्र-यूरोलोजी), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
 डा० मण्डन मिश्र (साहित्य एवं शिक्षा-संस्कृत), दिल्ली ।
 डा० मात्यू सामूएल कलरिक्कल (चिकित्साशास्त्र-कार्डियोलोजी), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्रीमती नवनीता देव सेन (साहित्य एवं शिक्षा-बंगाली), कलकत्ता, पश्चिम बंगाल ।
 श्री नागावरा रामाराव नारायण मूर्ति (व्यापार एवं आर्थिक गतिविधि), बंगलौर, कर्नाटक ।
 सुश्री नीडोन्यो अंगामी (समाज कार्य), कोहिमा, नागालैण्ड ।
 श्री पलहिरा सोना चागथू (साहित्य एवं शिक्षा-काव्यशास्त्र), आइजौल, मिजोरम ।
 डा० परसु राम मिश्रा (विज्ञान एवं इंजीनियरी-जीव मंडल), पलामू, बिहार ।
 श्रीमती पत्रिशा मुखीम (समाज कार्य), शिलांग, मेघालय ।
 श्रीमती पीलू नौशीर जंगालवाला (साहित्य एवं शिक्षा), दिल्ली ।

- डा० प्रदीप कुमार दवे (चिकित्सा शास्त्र-आर्थोपेडिक्स), दिल्ली ।
 श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय (समाज कार्य), नलबाड़ी, असम ।
 डा० रामानन्द सागर (कला-सिने कला), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 श्रीमती सन्तोष यादव (खेल-पर्वतारोहण), दिल्ली ।
 श्री सत्य नारायन गौरीसरिया (सार्वजनिक कार्य), लंदन, यू०के० ।
 श्री शेखर कपूर (कला-सिने कला), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 श्रीमती शुभा मुद्गल (कला-संगीत-गायन), दिल्ली ।
 वैद्य सुरेश चंद्र चतुर्वेदी (चिकित्साशास्त्र-आर्युवैदिक), मुम्बई, महाराष्ट्र ।
 डा० विजय पांडुरंग भटकर (विज्ञान एवं इंजीनियरी-सूचना प्रौद्योगिकी), पुणे, महाराष्ट्र ।
 डा० विपिन बक्शी (चिकित्साशास्त्र-आप्टोमेटरी एण्ड कंटेक्ट लेंसज), दिल्ली ।

गोपालकृष्ण गांधी, राष्ट्रपति का सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th January, 2000

No. 57-Pres/2000.— The President is pleased to make the following awards :—

PADMA VIBHUSHAN

- Shri Bhairab Datt Pande (Civil Service), Almora, Uttar Pradesh.
 Pandit Hari Prasad Chaurasia (Art-Music-Instrumental), Mumbai, Maharashtra.
 Prof. Jagdish Natwarlal Bhagwati (Literature & Education – Economics), New York, USA.
 Pandit Jasraj Motiram (Art- Classical Music- Vocal), Mumbai, Maharashtra.
 Prof. Kakkadan Nandanath Raj (Literature & Education), Trivandrum, Kerala.
 Guru Kelucharan Mohapatra (Art- Dance), Bhubaneshwar, Orissa.
 Dr. Krishen Behari Lall (Civil Service), Delhi.
 Dr. Krishnaswamy Kasturirangan (Science & Engineering- Space Technology), Bangalore, Karnataka.
 Shri Maidavolu Narasimham (Trade & Economic Activity), Hyderabad, Andhra Pradesh.
 Dr. Manohar Singh Gill (Civil Service), Delhi.
 Shri Rasipuram Krishnaswami Narayan (Literature & Education- Literature), Chennai, Tamil Nadu.
 Shri Sikander Bakht (Public Affairs), Delhi.
 Shri Tarlok Singh (Civil Service), Delhi.

PADMA BHUSHAN

Shri Anil Kumar Agarwal (Environment), Delhi.

Prof. Braj Basi Lal (Science & Engineering- Archeology), Delhi.

Shri Dharmasthala Veerendra Heggade (Social Work), Dakshini Kannada Distt., Karnataka.

Prof.(Dr.) Harbans Singh Wasir (Medicine-Cardiology), Gurgaon, Haryana.

Shri Holenarasipur Yoganarasimham Sharada Prasad (Literature & Education), Delhi.

Swami Kalyan Dev (Social Work), Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.

Late Shri Karamshi Jethabhai Somaiya (Posthumous) (Social Work), Mumbai, Maharashtra.

Begam Kudsia Aizaz Rasul (Social Work), Lucknow, Uttar Pradesh.

Prof. (Dr.) Pakkiriswamy Chandra Sekharan (Science & Engineering- Forensic Science), Bangalore, Karnataka.

Prof. Pavagada Venkata Indiresan (Science & Engineering- Electronics), Delhi.

Dr. Raghunath Anant Mashelkar (Science & Engineering- Chemistry), Delhi.

Smt. Radha Reddy (Art- Dance), Delhi.

Shri Raja Reddy (Art- Dance), Delhi.

Shri Rajini Kanth (Art- Cinema), Chennai, Tamil Nadu.

Shri Ram Narain Agarwal (Science & Engineering- Aerospace), Hyderabad, Andhra Pradesh.

Shri Ratan Naval Tata (Trade & Economic Activity), Mumbai, Maharashtra.

Smt. Sharan Rani Backliwal (Art- Music- Instrumental), Delhi.

Late Dr. Suryanarayana Srinivasan (Posthumous) (Science & Engineering- Space Defence), Thiruvananthapuram, Kerala.

Dr. Vasudev Kalkunte Aatre (Science & Engineering- Defence Electronics), Delhi.

* Maulana Wahiduddin Khan (Public Affairs), Delhi.

PADMA SHRI

Shri Abdur Rahman Rahi (Literature & Education- Kashmiri), Srinagar, Jammu & Kashmir.

Shri Allah Rakka Rahman (Art- Music), Chennai, Tamil Nadu.

* Shri Aloysius Prakash Fernandez (Community Development), Bangalore, Karnataka.

Shri Alyque Padamsee (Art- Theatre), Mumbai, Maharashtra.

Smt. Anjolie Ela Menon (Art- Painting), Delhi.

- Dr. Dilip Devidas Bhawalkar (Science & Technology- Laser Technology), Indore, Madhya Pradesh.
- Shri Dina Nath Malhotra (Book Publishing), Delhi.
- Late Shri Elangbam Nilakanta Singh (Posthumous) (Literature & Education- Manipuri), Imphal, Manipur.
- Shri Enuga Sreenivasulu Reddy (Public Affairs), New York, USA.
- Shri Gopaldasamy Govindarajan (Science & Engineering- Instrumentation), Mumbai, Maharashtra.
- Prof. Grigoriy Lvovitch Bondarevsky (Literature & Education), Moscow, Russia.
- Dr. Gurdev Singh Khush (Science & Engineering- Agricultural Science), Manila, Philippines.
- Dr. Gurumukh Sajjanmal Sainani (Medicine), Mumbai, Maharashtra.
- Dr. Hanumappa Sudarshan (Social work), B.R. Hills, Karnataka.
- Smt. Hema Malini (Art- Cine Art), Mumbai, Maharashtra.
- Dr. Immaneni Sathyamurthy (Medicine- Cardiology), Chennai, Tamil Nadu.
- Shri Jagan Nath Kaul (Social work), Faridabad, Haryana.
- Smt. Janaky Athi Nahappan (Social Work), Kuala Lumpur, Malaysia.
- Prof.(Dr.) Kakarla Subbarao (Medicine-Radiology), Hyderabad, Andhra Pradesh.
- Shri Kalika Prasad Saxena (Literature & Education- Hindi), Lucknow, Uttar Pradesh.
- Shri Kanhai Chitrakar (Art- Painting), Mathura, Uttar Pradesh.
- Dr. Kirpal Singh Chugh (Medicine- Nephrology), Chandigarh.
- Dr. Mahendra Bhandari (Medicine- Urology), Lucknow, Uttar Pradesh.
- Dr. Mandan Mishra (Literature & Education- Sanskrit), Delhi.
- Dr. Mathew Samuel Kalarickal (Medicine- Cardiology), Chennai, Tamil Nadu.
- Smt. Nabaneeta Dev Sen (Literature & Education- Bengali), Calcutta, West Bengal.
- Shri Nagavara Ramarao Narayana Murthy (Trade & Economic Activity), Bangalore, Karnataka.
- Ms. Neidonuo Angami (Social Work), Kohima, Nagaland.
- Shri Pahlira Sena Chawngthu (Literature & Education- Poetry), Aizawl, Mizoram.
- Dr. Parasu Ram Mishra (Science & Engineering- Bio Sphere), Palamau, Bihar.
- Smt. Patricia Mukhim (Social Work), Shillong, Meghalaya.
- Smt Piloo Nowshir Jungalwalla (Literature & Education), Delhi.
- Dr. Pradeep Kumar Dave (Medicine- Orthopedics), Delhi.
- Shri Rabindra Nath Upadhyay (Social Work), Nalbari, Assam.
- Dr. Ramanand Sagar (Art- Cine Art), Mumbai, Maharashtra.
- Smt. Santosh Yadav (Sports- Mountaineering), Delhi.

Shri Satya Narayan Gourisaria (Public Affairs), London, United Kingdom.

Shri Shekhar Kapur (Art- Cine Art), Mumbai, Maharashtra.

Smt. Shubha Mudgal (Art-Music-Vocal), Delhi.

Vaidya Suresh Chandra Chaturvedi (Medicine-Ayurvedic), Mumbai, Maharashtra.

Dr. Vijay Pandurang Bhatkar (Science & Engineering- Information Technology), Pune, Maharashtra.

Dr. Vipin Buckshey (Medicine-Optometry & Contact Lenses), Delhi.

GOPALKRISHNA GANDHI, Secy. to the President

